



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 23]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 12, 2008/अग्रहायण 21, 1930

No. 23]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 12, 2008/AGRAHAYANA 21, 1930

रक्षा मंत्रालय

MINISTRY OF DEFENCE

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 12 दिसंबर, 2008

New Delhi, the 12th December, 2008

का.नि.आ. 31(अ).—केन्द्रीय सरकार, छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 12 की उप-धारा (8) का अनुसरण करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (2) के अधीन यथा अधिसूचित तारीख 26 अगस्त, 2008 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 4, तारीख 26 अगस्त, 2008 के का.नि.आ. 19(अ) द्वारा प्रकाशित की गई थी, छावनी बोर्ड, झांसी के वार्ड संख्या III के संबंध में हुए, 19 अक्टूबर, 2008 के साधारण निर्वाचन में सदस्य के निर्वाचन को अधिसूचित करती है:—

श्री सुनील

वार्ड संख्या III

[फा. सं. 14(3)/2008/डी (क्यू एण्ड सी)]

आर. एस. दहिया, अवर सचिव

S.R.O. 31(E).—In pursuance of sub-section (8) of Section 12 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006), the Central Government hereby notifies the election of the member at the ordinary election held in respect of Ward No. III of Cantonment Board, Jhansi on the 19th October, 2008 as notified under sub-section (2) of Section 15 of the said Act, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 4, dated the 26th August, 2008 vide S.R.O. 19 (E), dated the 26th August, 2008.

Shri Suneel

Ward No. III

[F. No. 14(3)/2008/D(Q & C)]

R. S. DAHIYA, Under Secy.